

Total No. of Questions : 05] [SET-A] [Total No. of Printed Page : 06

FINAL EXAMINATION – JULY 2017

BACHELOR OF COMMERCE (B.Com)

First Year – First Semester

Financial Accounting

1BCOM 4

Time : 3 Hours

Max Marks : 70

Min. Marks: 23

Note : Attempt all questions. All question carry equal marks.

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

- Q.1. Define accounting. Is accounting an art or a science both? Distinguish between book-keeping and accounting.
लेखांकन की परिभाषा दीजिए। क्या लेखांकन कला है या विज्ञान या दोनों? पुस्तपालन तथा लेखांकन में अंतर करें।

अथवा / OR

What are the basic principles of accounting? Explain them briefly.
लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत क्या हैं? उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए।

- Q.2. “Every debit entry has its corresponding credit entry and every credit entry has its corresponding debit entry.” Prove this statement with examples.
“प्रत्येक विकलन प्रविष्टि की समाकलन प्रविष्टि होती है। एवं प्रत्येक समाकलन प्रविष्टि की विकलन प्रविष्टि होती है।” इस कथन की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए।

अथवा / OR

Prepare final accounts of Porwal ltd. For the year ending 31st march 2012 from the following data:-

31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पोरवाल लिमिटेड के अंतिम खाते निम्नलिखित विवरण से बनाइए –

	Debit	Credit
Capital पूँजी	-	55,310
Purchase & sales क्रय एवं विक्रय	70,007	82,500
Cash रोकड़	8,708	-
Debtors & creditors देनदार एवं लेनदार	21,300	20,625
Bad debts डूबत ऋण	300	-
Depreciation ह्रास	1,800	-
Furniture फर्नीचर	4,500	-
General expenditure सामान्य व्यय	700	-
Outstanding salary अदत्त वेतन	-	785
Plant प्लांट	25,000	
Provision for bud dobts अशोध्य ऋण प्रावधान	-	1,200
Salary वेतन	3,000	-
Sales returns विक्रय वापसी	505	-
Op. stock प्रारंभिक स्कंध	24,600	-
	<u>1,60,420</u>	<u>1,60,420</u>

Adjustments:

सामायोजनाए:

- (i) Closing stock Rs 21,499
अंतिम रहतिया 21,499 रु.

- (i) A provision of 10% is to be created on debtors
देनदारों पर 10% प्रावधान करना है
- (ii) The value of building is to be appeared to be Rs 40,000
भवन का मूल्य बढ़ाकर 40,000 रु. करें
- (iii) The value of stock and machinery is to be reduced by 20%
स्टॉक और मशीनरी का मूल्य 20% से घटाएं
- (iv) C is to bring in Rs 50,000 as his capital and Rs 10,000 for
goodwill in cash
C को 50,000 रु. पूंजी के रूप में तथा 10,000 रु. ख्याति के लिए
नकद लाना है
- (v) The firm had taken a joint life policy of Rs 50,000 in which they had
paid Rs 15,000 as premium the surrender value of the policy on the
date of admission of C was Rs 10,000

Prepare revaluation account. Partner's capital accounts, cash
account, joint life policy account and balance sheet of the new
firm

फर्म ने 50,000 रु. का संयुक्त जीवन बीमा-पत्र लिया था। जिस पर
उन्होंने 15,000 रु. प्रीमियम के रूप में दे दिया है। C के प्रवेश के स म य
बीमा-पत्र का समर्पण मूल्य 10,000 रु. था।

पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते, रोकड़ खाता, संयुक्त
बीमा-पत्र खाता और नई फर्म आर्थिक चिट्ठा बनावें।

- (ii) Credit-purchase of Rs 4,200 has not been recorded
4200 रु. के उधार क्रय का लेखा नहीं किया गया है
- (iii) Write-off Rs 300 for bad debts and make a provision for
Rs 1,000 for bad doubtful debts
300 रु. के अशोध्य ऋण अपलिखित कीजिए तथा अशोध्य एवं
संदिग्ध ऋणार्थ प्रावधान 1,000 रु. कीजिए
- (iv) Purchase of furniture of Rs 2,000 has been recorded in
purchase book by mistake
2000 रु. के क्रय किये गए फर्नीचर का लेखा त्रुटिवश क्रय बही
में कर दिया गया है

Q.3. Describe the various methods of rectification.
अशुद्धियों के सुधार की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।

अथवा /OR

On 1st April 2009 Vikas company purchased a plant for Rs 10,00,000 &
spent Rs 40,000 on installation. On 31st October 2010, a part of it which
originally had cost Rs 80,000 was sold for Rs 21,500. On 1st December,
2010, another plant was purchased for Rs 150,000. On 1st August 2011,
another part of the first plants which originally had cost Rs 2,40,000 was
sold for Rs 89,200. Depreciation was provided for annually @ 10% per
annum by diminishing balance method. On 1st Jan 2012, however, the
company charged this method of providing depreciation and adopted the
method of writing of 6% per annum on the original cost of the plant.
Prepare plant account. The accounting year of the company ends on 30th
June each year.

1st अप्रैल, 2009 को विकास कम्पनी ने 10,00,000 रु. में एक संयंत्र खरीदा तथा
उसके लगाने पर 40,000 रु. व्यय हुआ उसका एक भाग जिसकी मूल लागत
80,000 रु. थी, 31 अक्टूबर, 2010 को 21,500 रु. में बेच दिया। 1 दिसंबर, 2010
को 1,50,000 रु. में एक दूसरा संयंत्र खरीदा गया। 1 अगस्त 2011 को पहले
संयंत्र का दूसरा भाग जिसकी मूल लागत 2,40,000 थी, 89,200 रु. में बेच दिया
गया। प्रति वर्ष क्रमागत शेष पध्दति द्वारा 10% प्रति वर्ष की दर से अवक्षयण
आयोजित किया जाता था, किन्तु 1 जनवरी 2012 को कम्पनी ने अवक्षयण
आयोजन की इस पध्दति को बदल दिया और सम्पत्ति की मूल लागत पर 6%
प्रति वर्ष आयोजन की विधि अपनायी। संयंत्र खाता तैयार कीजिए। कम्पनी का
हिसाबी वर्ष 30 जून को समाप्त होता है।

Q.4. X company has its branch of Locknow. Goods are invoiced to this branch of 20% profit on invoice price. From the following details prepare branch account in the books of head office showing branch profit.

X कम्पनी की एक शाखा लखनऊ में है जिसे बीजक मूल्य पर 20% लाभ से भेजा जाता है, निम्नांकित सूचनाओं के आधार पर शाखा का लाभ प्रकट करते हुए मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा खाता बनाइए:

Goods supplied to branch at invoice price शाखा को माल भेजा (बीजक मूल्य पर)	38,000
Wages paid by head office मजदूरी (मुख्य कार्यालय द्वारा भुगतान)	1,520
Rent paid by head office किराया (मुख्य कार्यालय द्वारा भुगतान)	1800
Sundry expenses paid H.O. विविध व्यय (मुख्य कार्यालय द्वारा भुगतान)	200
Cash sales नकद बिक्री	24,800
Cash received from debtors देनदार से रोकड़ प्राप्त	10,000
Credit sales उधार बिक्री	11,200
Discount allowed to customers ग्राहकों को दी गयी कटौती	400
Goods spoiled माल नष्ट हुआ	100
Goods returned by customers ग्राहकों ने माल लौटाया	200

अथवा / OR

What is the meaning of departmental accounts? Describe its advantages.
विभागीय खातों से क्या आशय है? इनके लाभों का वर्णन कीजिए।

Q.5. Write short notes on the following : (Any two)
निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। (कोई दो)

- (i) Rules applicable in the absence of partnership deed
साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम
- (ii) Profit & loss appropriation account
लाभ-हानि विनियोजन खाता
- (iii) Dissolution of firm
फर्म का विघटन

अथवा / OR

A and B are in partnership sharing profits and losses equally their balance sheet as on 31st march 2009 was as under.

A और B समान अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए साझेदारी है। 31 मार्च 2009 को उनका निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था।

Capital and liabilities	Amount	Assets and properties	Amount
पूंजी और दायित्व	रकम	सम्पत्तियाँ और जायदाद	रकम
Creditors	17,000	Cash	25,000
लेनदार		नकद	
Bills payable	13,000	Debtors	13,000
देय विपत्र		देनदार	
Capital accounts		Stock	20,000
पूंजी खाते		रहतिया	
A: 50,000		Furniture	12,000
		फर्नीचर	
B: 70,000	12,000	Building	30,000
		भवन	
		Machinery	35,000
		मशीनरी	
		Patents	15,000
		पेटेण्ट्स	
	<u>150,000</u>		<u>150,000</u>

They admit C into partnership on the following terms giving him 1/5th share in profit

वे C को लाभों में 1/5 हिस्सा देते हुए साझेदारी में निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश देते हैं: